



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 10—फरवरी 16, 2007 (माघ 21, 1928)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 10—FEBRUARY 16, 2007 (MAGHA 21, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. बी. 22012/1/2000-III.—श्री के. सी. भट्टाचार्य की, प्रतिनियुक्ति पर उत्तर-पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (उ.पु.-सैक), शिलांग में निदेशक के रूप में नियुक्ति को, उनके निवर्तन अग्यु प्राप्ति अर्थात् 30.09.2007 अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

ई. वी. रमण रेड्डी, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. ए-12025/4/97-प्रशा-II.—योजना आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2006 के क्रम में निम्नलिखित सात नियमित अधिक अधिकारियों की योजना-आयोग में रिक्त जीसीएस पदों के स्थान पर 8,000-275-13,500/ रु. के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारियों के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को एतद्वारा 30.6.2007 की अवधि तक, या

पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, बढ़ाया जाता है :—

सर्व श्री

1. बाबू लाल
2. एन वेंकटेश्वर्लू
3. एम. जोजफ यूजीन राज
4. के. के. मकवाना
5. श्याम सिंह
6. वाई. एन. खरे
7. डॉ. आर. वी. पी. सिंह

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपरोक्त नामित सात अधिकारियों में से किसी को भी अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ आधार पर की गई कोई सेवा न तो अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु अर्हता के लिए गिनी जाएगी।

आर. के. परमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. के. 11019/1/2007-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री हेमन्त लक्ष्मण गोखले को, न्यायविद् श्री हरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 11019/1/2007-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री सैयद रफत आलम को, न्यायविद् श्री अजय नाथ राय का स्थानान्तरण सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 11019/1/2007-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री भास्कर भट्टाचार्य को, न्यायविद् श्री विकास श्रीधर सिरपुरकर की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 11019/1/2007-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री दिनेन्द्र विश्वास को, न्यायविद् श्री बूचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13018/1/2006-यू.एस.-I.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश कुमार डाह्यालाल शाह को दिनांक 15 जनवरी, 2007 से दो वर्ष

की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/5/2006-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार-विमर्श के उपरान्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री अजय नाथ राय को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 27 जनवरी 2007 को या इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/3/2006-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री विकास श्रीधर सिरपुरकर को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/3/2006-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री हरजीत सिंह बेदी को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/3/2006-यू.एस.-II.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री बूचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2007.

सं. पीएफ/जी/192-प्रशा-V—राष्ट्रपति, श्री राधा कृष्ण को दिनांक 1.12.2006 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, गृह मंत्रालय में 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अरविन्द मुखर्जी, अवसर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. ए. 32013/2/2006-प्रशा.-I (जी.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री ए. के. शर्मा, जो वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को 1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए. 32013/2/2006-प्रशा.-I (जी.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री केशव प्रसाद, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को 1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए. 32013/2/2006-प्रशा.-I (जी.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री तेजा सिंह, जो विद्युत मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को 3 नवम्बर, 2006 के अपराह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. 14015/06/2006-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष, 2006 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग में एक (01) रिक्ति भरने के लिए दिनांक 15 नवम्बर, 2006 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई गुजरात राज्य के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, श्री डी. पी. जोशी (जन्म तिथि 30.12.1957) के नाम वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग की वर्ष, 2006 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री डी. पी. जोशी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें गुजरात संवर्ग आबन्धित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 49/2006 (फा. सं. ए-39012/13/2006)-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वापी के रूप में पद स्थापित डॉ. सतीश टी. डोंगरे, आई.आर.एस. (सी. एंड सी. ई.-91) द्वारा सौंपे गए सरकारी सेवा से त्यागपत्र को दिनांक 16.10.2006 (अपराह्न) से प्रभावी मानते हुए सी. सी. एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 के अंतर्गत सहर्ष स्वीकार करते हैं।

हवा सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2006

सं. 50/2006 (फा. सं. ए-39012/14/2006) प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सर्वश्री प्रवीण कुमार, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, सी. एस. आई. विमानपत्तन, मुंबई और हरीश छबड़ा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के 57वें बैच के परिवीक्षाधीन द्वारा दिया गया तकनीकी त्यागपत्र क्रमशः दिनांक 29.8.2006 और 25.8.2006 से मंजूर करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. 51/2006 (फा. सं. ए-39012/15/2006)-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सुश्री मोना पुथी, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली और डी. रोनाल्ड, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली द्वारा दिया गया तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 27.8.2006 (पूर्वाह्न) से मंजूर करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2006

सं. 52/2006 (फा. सं. ए-32012/18/2004)-प्रशा.-II(पी टी)--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सं. 14015/06/2006-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (14,300-400-18,300/- रु.) प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड मंजूरी की तारीख
	सर्वश्री/सुश्री	
1.	बी. एन. सिंह	17.10.2003
2.	एस कानान	29.04.2005
3.	के. के. अजवाणी	01.11.2002
4.	सी. के. जैन	01.01.2006

2. उक्त आदेश में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की कोई अंतर-वरिष्ठता नहीं है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. 01/2007 (फा. सं. ए-38012/44/2006)-प्रशा.-II-- राष्ट्रपति, श्री जोगिन्द्र सिंह, महानिदेशक (सतर्कता), सी.बी.ई.सी., नई दिल्ली द्वारा सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए दिये गये नोटिस को दिनांक 02.01.2007 से स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. ए-32014/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री जे. के. ग्रोवर, अनुभाग अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति को तदर्थ नियुक्ति हेतु समय-समय पर सूचित शर्तों के अध्वधीन दिनांक 30.6.2007 तक या नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की अनुमति देते हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

सं. ए-19011/255/2005-स्था.--राष्ट्रपति, श्री डी. पी. सेहरावत, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.6.2007 तक और छः महीने की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. पहले से लागू अन्य निबन्धन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. ए-32019/1/2006-संवर्ग--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आदेश सं. 5/8/2006-सी एस-1 (डेस्क)(पार्ट) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नीचे उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम और जन्म तिथि	सी.एस.एल. सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री परमजीत सिंह 11.03.1953	4330	22.12.2006 (पूर्वाह)
2.	श्रीमती के.ए.एस. सुलोचना 26.07.1957	5614	29.12.2006 (पूर्वाह)

2. उक्त तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

(i) तदर्थ प्रोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए सम्मिलित होने या ग्रेड-I में वरीयता के दावे करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, समाप्त किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त अधिकारियों को वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) सचिवालय में तैनात किया जाता है।

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

सं. ए-19011/12/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अजय त्यागी, भा. प्र. से. (हि.प्र. : 84) को 6.12.2006 के पूर्वाह से 12 अगस्त, 2008 तक की अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2007

सं. ए-32012/1/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/61/2005-सीएस-1 के अनुसरण में इस विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की उपभोक्ता मामले

विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ नियुक्ति को समय-समय पर यथासूचित तदर्थ पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अध्याधीन 30.6.2007 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भर लिए जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	सी एस एल सं.	नाम	किस तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं
1.	865/89	श्री डी. सी. देवगुण	25.03.2004
2.	871/89	श्री वी. के. सहगल	25.03.2004
3.	872/89	श्री ओमबीर सिंह	06.04.2004
4.	878/89	श्री अमरजीत सिंह	01.04.2004
5.	942/89	श्री गोपाल सिंह	25.03.2004
6.	37/94	श्री पी. नागराजन	24.02.2004
7.	383/91	श्रीमती शैलेश कुमारी	12.10.2006

एस. के. नायक, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. 17016/21/99. भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार की सहमति से सक्षम प्राधिकारी ने श्री एम. आर. भट्ट, भारतीय वन सेवा (पश्चिम बंगाल 97) की पश्चिम बंगाल संवर्ग से उड़ीसा संवर्ग (गृह राज्य) में अधिकारी द्वारा उड़ीसा सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति अनुमोदित कर दी है।

संजय कुमार श्रीवास्तव, निदेशक

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. 17013/6/2006-भा.व.से-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के नियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2006 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए 30 सितम्बर, 2006 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार चयन सूची को अब अनुमोदित कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2006 को भारतीय वन सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध एक पदोन्नति रिक्ति को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्य का नाम शामिल है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
1.	श्री बंसी लाल नेगी	10.04.1961

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. ए. 12025/36/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. रूपा शर्मा को 22.05.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. रूपा शर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन तैनात किया जाता है। डॉ. रूपा शर्मा दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगी।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. ए. 12033/3/2005-स्था.-III--इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जून, 2006 के साथ पत्रित शुद्धि-पत्र 13 जुलाई, 2006 के क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में प्रोग्रामर, समूह 'क' राजपत्रित, के पद पर श्री डी. पी. अवस्थी की तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 28.12.2006 से 27.6.2007 तक छह माह की अवधि के लिए बढ़ाई जाती है अथवा नियमित पदधारी के पदभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. ए. 12022/1/99-भाचिप (स्था. II)--आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत श्री बाला प्रसाद, भारतीय वन सेवा, (एमटी : 83), निदेशक को केन्द्र में 31.12.2006 को उनका कार्यकाल पूरा हो जाने पर 31.12.2006 के अपराह्न से आयुष विभाग में उन्हें इयूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री बाला प्रसाद, भारतीय वन सेवा, (एमटी : 83) को 02.01.2007 से 02.03.2007 तक 60 दिनों की अवधि की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है। इसके साथ राजपत्रित अवकाश होने के कारण 01.01.2007 को पूर्व योजन की अनुमति भी दी जाती है। श्री बाला प्रसाद, भारतीय वन सेवा, निदेशक अवकाश अवधि की समाप्ति के बाद अपने मूल संवर्ग अर्थात् मणिपुर सरकार में इयूटी हेतु रिपोर्ट करेंगे।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

सं. 12022/1/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति ने श्रीमती ममता शंकर, आई. ई. एस. (1993) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 13 दिसम्बर, 2006 से केन्द्र में उनके चार वर्षों के कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 10.05.2009 तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, के लिए, 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में उप-सचिव के पद पर नियुक्त किया है। वे केन्द्र में अपने कार्यकाल की गणना 11.05.2005 से करेंगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. ए. 19012/16/2006-ईए. I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) अधिकारी, श्रीमती के. एस. उमा को दिनांक 23 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 19012/17/2006-ईए. I--राष्ट्रपति, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के नियमित ग्रेड-I अधिकारी और तदर्थ आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के जूनियर टाइम स्केल अधिकारी के रूप में स्थानापन्न श्री आनन्द कृष्ण को दिनांक 1 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. 39013/1/2007-का.व.स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री यॅगखोम आशीष राज सिंह, कर्मचारी कोड सं. 3897, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "डी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 जनवरी, 2007 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्था. I)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2007

सं. ए. 31013/1/03-आर. एस.--राष्ट्रपति, श्री राज कुमार करदम, स्थानापन्न रेल संरक्षा आयुक्त को सहर्ष दिनांक 17.08.2006 से समान पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

संदीप प्रकाश, निदेशक

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. ए. 12026/2/2003-स्था.-II(बी)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2006 के का.ज्ञा. सं. 5/7/2006-सीएस-II के अनुसार, राष्ट्रपति, श्री श्री हरी सिंह रावत, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव को तदर्थ आधार पर उसी संवर्ग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 08.01.2007 से दिनांक 30.06.2007 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. पी. नायर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore 560094, the 25th January 2007

No. B. 22012/1/2000-III.—The appointment of Shri K.C. Bhattacharya as Director, North Eastern Space Applications Centre (NE-SAC), Shillong, on deputation is extended till his superannuation i.e., 30.09.2007 or until further orders, whichever is earlier.

E.V. RAMANA REDDY, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th January 2007

No. A-12025/4/97-Admn.II.—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 23rd August, 2006, the term of ad-hoc appointment of the following seven regular Economic Officers as Research Officers in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- against vacant GCS post in the Planning Commission is hereby extended for the period upto 30.06.2007, or until the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :—

S/Shri

1. Babu Lal
2. N. Venkateswarlu
3. M. Joseph Eugene Raj
4. K.K. Makwana
5. Shyam Singh
6. Y.N. Khare
7. Dr. R.V.P. Singh

2. The ad-hoc appointment will not bestow on any of the above named seven Officers any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that any service rendered by any of them on ad-hoc basis in the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

R.K. PARMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 12th January 2007

No. K. 11019/1/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Hemant Laxman Gokale, seniormost Judge of the Bombay High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Harjit

Singh Bedi relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Bombay High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11019/1/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Syed Rafat Alam, seniormost Judge of the Allahabad High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Ajoy Nath Ray, relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Allahabad High Court consequent upon his transfer as Chief Justice of the Sikkim High Court.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11019/1/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Bhaskar Bhattacharya, seniormost Judge of the Calcutta High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice V.S. Sirpurkar relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Calcutta High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11019/1/2007-US.II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Dinendra Biswas, seniormost Judge of the Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice B. Sudershan Reddy relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Gauhati High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13018/1/2006-US-I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Dahyalal Shah, to be an Additional Judge of the Gujarat High Court for a period of two years with effect from 15th January, 2007.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 11017/5/2006-U.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice

of India, is pleased to transfer Shri Justice Ajoy Nath Ray, Chief Justice of the Allahabad High Court, as the Chief Justice of the Sikkim High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Sikkim High Court on or before 27th January, 2007.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13011/3/2006-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Vikas Shridhar Sirpurkar, Chief Justice of the Calcutta High Court, to be Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13011/3/2006-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Harjit Singh Bedi, Chief Justice of the Bombay High Court, to be Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K-13011/3/2006-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Buchireddy Sudershan Reddy, Chief Justice of the Gauhati High Court, to be Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th January 2007

No. PF/G/192-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri Radha Krishan, Assistant Director (OL) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in the Ministry of Home Affairs on ad-hoc basis w.e.f. 1.12.2006 (FN) for a period of one year or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th January 2007

No. A.32013/2/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri A.K. Sharma, a Grade I Officer of CSS, holding the post of Under Secretary on adhoc basis in the Ministry of Textiles, as Under Secretary on adhoc basis, in

Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 1st November, 2006 until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.32013/2/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Keshav Prasad, a Grade I Officer of CSS, holding the post of Under Secretary on adhoc basis in the Department of Food and Public Distribution, as Under Secretary on adhoc basis, in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 1st November, 2006 until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.32013/2/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Teja Singh, a Grade I Officer of CSS, holding the post of Under Secretary on adhoc basis in the Ministry of Power, as Under Secretary on adhoc basis, in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 3rd November, 2006 until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 24th January 2007

No. 14015/06/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 containing the name of Sh. D.P. Joshi [D.O.B. 30.12.1957], a member of Non-State Civil Service of the State of Gujarat prepared by the Selection Committee in its meetings held on 15th November, 2006, towards filling up one (01) existing vacancy in the Gujarat Cadre of Indian Administrative Service, during 2006.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/06/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. D.P. Joshi, a Non-State Civil Service Officer of Gujarat to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Gujarat Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th October 2006

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE
ESTABLISHMENT

New Delhi, the 30th October 2006

No. 49/2006/F.No.39012/13/2006-Ad.II.—The President is pleased to accept the resignation from Government service tendered by Dr. Satish T. Dongre, IRS (C&CE:91) posted as Joint Commissioner of Customs and Central Excise, Vapi with effect from 16.10.2006 (A.N.) under the Rule 26 of CCS (pension) Rules, 1972.

HAWA SINGH, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE OF CUSTOMS

New Delhi, the 20th November 2006

No. 50 of 2006 F.No. A-39012/14/2006-Ad.II.—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by S/Sh. Parvin Kumar, Assistant Commissioner of Customs, CSI, Airport, Mumbai and Harish Chhabra Probationer of 57th batch from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) with effect from 29.08.2006 and 25.08.2006 respectively.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 28th November 2006

No. 51 of 2006 F.No. A-39012/15/2006-Ad.II.—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Ms. Mona Pruthi, Assistant Commissioner of Customs, Delhi and Shri D. Ronald, Assistant Commissioner of Customs, Delhi, with effect from 27.08.2006 (FN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 29th November 2006

No. 52/2006. F. No. A-32012/18/2004-Ad.II (Pt.).—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (Rs. 14,300-400-18,300/-) in the Junior Administrative Grade to the following officers of IRS(C&CE) with effect from the date(s) mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Date of grant of NFSG
	S/Shri/Ms.	
1.	B.N. Singh	17-10-2003
2.	S. Kannan	29-04-2005
3.	K.K. Ajwani	01-11-2002
4.	C.K. Jain	01-01-2006

2. The order has no bearing on the inter se seniority of the officers in the Junior Administrative Grade.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The, 2nd January 2007

No.01 of 2007 (F. No. A.38012/44/2006-Ad. II).—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Jogendra Singh, Director General (Vigilance), CBEC, N. Delhi from Government Service with effect from 02-01-2007 under rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

BANKING DIVISION

New Delhi, the 18th January 2007

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri J. K. Grover, Section Officer upto 30-6-2007 or till regular Section Officer is made available, whichever is earlier subject to the terms & condition of ad-hoc promotion intimated from time to time.

S.P.S. SANGWAN, Under Secy.

No. A-19011/255/2005-Estt.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri D.P. Sehrawat, Sr. PPS for a further period of six months up to 30-6-2007 or till a regular Sr. PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The other terms and conditions already in force will remain unchanged.

S.P.S. SANGWAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 24th January 2007

No. A-32019/1/2006-Cadre.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/8/2006-CS.I (Desk) (pt) dated 12.12.2006 the President is pleased to appoint the following Section Officers or Central Secretariat Service (CSS) to the Grade I (Under Secretary) of CSS on adhoc

basis in the Department of Commerce (Supply Division) w.e.f. from the date as indicated against their names.

Sl. No.	Name & Date of Birth	CSL No.	Date of Joining
1.	Shri Parmjit Singh 11-3-53	4330	22-12-2006 (F.N.)
2.	Smt. K.A.S. Sulochana 26-07-57	5614	29-12-2006 (F.N.)

2. The aforesaid adhoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue into grade indefinitely or for inclusion in the select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) Adhoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The above officers are posted in Secretariat, DOC(SD).

V. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 12th December 2006

No. A-19011/12/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Tyagi, IAS (HP : 84) as Secretary in the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board under the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from the forenoon of 06-12-2006 for a period upto 12th August, 2008.

SHRI PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd January 2007

No. A-32012/1/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/61/2005-CS.I dated 28-12-2006, the President is pleased to extend the adhoc appointment of the following regular Assistants of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on purely ad-hoc basis for the period upto 30-6-2007 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of ad-hoc promotion intimated from time to time :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO
1	2	3	4
1.	865/89	Shri D.C. Devgune	25-03-2004
2.	871/89	Shri V.K. Sehgal	25-03-2004

1	2	3	4
3.	872/89	Shri Ombir Singh	06-04-2004
4.	878/89	Shri Amarjit Singh	01-04-2004
5.	942/89	Shri Gopal Singh	25-03-2004
6.	37/94	Shri P. Nagarajan	24-02-2005
7.	383/91	Smt. Shailesh Kumari	12-10-2006

S. K. NAYAK, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 15th December 2006

No. 17016/21/99-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, and with the concurrence of the Government of West Bengal and the Government of Orissa, the competent authority has approved the inter cadre deputation of Shri M.R. Bhatta, IFS (WB : 97) from West Bengal cadre to Orissa cadre (Home State) for a period of five years with effect from the date the officer joins the post in Government of Orissa.

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, Director

New Delhi, the 20th December 2006

No. 17013/6/2006-IFS-II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for the year 2006 was held on 30th September, 2006. Union Public Service Commission have not approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following member of the State Forest Service of Himachal Pradesh towards filling up of one promotion vacancy available in Himachal Pradesh Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2006.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Bansilal Negi	10-04-1961

ASHOK KUMAR, Under secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 18th January 2007

No. A-12025/36/2005-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Roopa Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 22-05-2006 until further orders.

Dr. Roopa Sharma is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Roopa Sharma shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 15th January 2007

No. A-12023/3/2005-Estt. III.—In continuation to this Department's notification of even number dated 26th June, 2006, read with corrigendum dated 13th July, 2006 the period of ad-hoc appointment of Shri D. P. Awasthi on the post of Programmer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- Group 'A' Gazetted, in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare is extended for a period of 6 months w.e.f. 28-12-2006 to 27-06-2007 or till a regular incumbent joins, whichever is earlier.

P.G. KALADHARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 29th December 2006

No. A-12022/1/99-ISM (E-II).—Consequent upon completion of the tenure at Centre on 31-12-06, Shri Bala Prasad, IFS (MT : 83), Director in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare stands relieved of his duties in the Deptt. of AYUSH w.e.f. the afternoon of 31-12-06.

Shri Bala Prasad, IFS (MT : 83) has been sanctioned earned leave for a period of 60 days w.e.f. 02-01-2007 to 02-03-2007 with permission to prefix 01-01-07 being a Gazetted holiday. Shri Bala Prasad, IFS, Director shall report for duty to his parent cadre i.e. Government of Manipur after expiry of the leave period.

T.S. BHATIA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 20th December 2006

No. 12022/1/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Mamta Shankar, IES (1993) as Deputy Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 13th December, 2006 for the balance period of her four years central tenure i.e. upto 10-05-2009 or until further orders, whichever event takes place earlier. She counts her Central tenure with effect from 11-05-2005.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd December 2006

No. A-19012/16/2006-EA.—The President is pleased to appoint Smt. K. S. Uma, a Senior Administrative Grade (SAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/-, with effect from the forenoon of the 23rd November, 2006.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/17/2006-EA.—The President is pleased to appoint Shri Anand Krishan, a regular Grade-I officer of Subordinate Statistical Service (SSS) and officiating as Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Statistical (ISS) on ad-hoc basis, to the post of Assistant Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, with effect from the forenoon of the 1st December, 2006.

RAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 25th January 2007

No. A-39013/1/2007-P&E-I.—President is pleased to accept the resignation of Shri Yengkhom Ashish Raj Singh, Emp. Code-3897, from the post of Scientist "D", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 25-01-2007 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 9th January 2007

No. A-31013/01/03-RS.—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Kardam, an officiating Commissioner of Railway Safety in the substantive capacity in the same post with effect from 17-8-2006.

SANDEEP PRAKASH, Director

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS

(DEPTT. OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 15th January 2007

No. A-12026/2/2003-E.II(B).—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's OM. No. 5/7/2006-CS.II dated 20-12-2006, the President is pleased to appoint Shri Shri Harry Singh Rawat, PS of CSSS cadre of Ministry of Shipping, Road Transport & Highways as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same cadre on ad-hoc basis w.e.f. 8-01-2007 for the period upto

30-06-2007 or till the posts are filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

P. P. NAIR, Under Secy.

The 29th January 2007

No. A-32013/16/2006-E.II.—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Executive Engineer (Civil) (NFSG) to the grade of Superintending Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- on ad-hoc basis with effect from 2nd January, 2007 in the Department of Road Transport & Highways for a period of six months or until further orders, whichever is earlier :—

S.No.	Name of Officers
	S/Shri
1.	V. K. Rajawat
2.	T. T. Negi
3.	Sudip Choudhury
4.	O. P. Srivastava

2. The appointment of above officers to the grade of Superintending Engineer (Civil) is purely on ad-hoc basis and will confer no right for regular appointment or claim for seniority in the grade of Superintending Engineer (Civil). The officers concerned are liable for reversion to the grade of Executive Engineer (Civil) (NFSG) at any time without notice.

P. P. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th January 2007

No. 704/8/2006-B(D).—Consequent upon recommendation by Public Enterprises Selection Board, the President is pleased to extend the tenure of Shri Harkesh Gupta, Director (O&M), Broadcast Engineering Consultants India Ltd. (BECIL) beyond 10-01-2007 for five years or till the date of superannuation, whichever is earlier.

GIRISH CHAND, Under Secy.